



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

13 नवंबर, 2020

संख्या 46

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	(₹ करोड़)				
	2019	2020		घट - बढ़	
	8 नवंबर	30 अक्टूबर	6 नवंबर	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2245630	2688737	2707017	18280	461387
1.1 संचलन में नोट	2245619	2688725	2707002	18277	461383
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	12	15	3	4
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	100	100	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	43	42	-1	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	525365	453999	450857	-3142	-74508
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4187	5623	5426	-197	1239
2.6 अन्य बैंक	34504	28441	28256	-185	-6248
2.7 अन्य	309475	950813	989243	38430	679768
3 अन्य देयताएं	1105083	1424609	1472092	47483	367009
कुल देयताएं / आस्तियां	4224386	5552365	5653033	100668	1428647
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2986952	3871478	3924569	53091	937617
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	191683	268700	278941	10241	87258
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	995155	1237763	1281845	44082	286690
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	6360	—	—	—	-6360
4.2 राज्य सरकारें	8423	4190	9037	4847	614
4.3 नाबार्ड	—	23320	23402	82	23402
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	23526	115757	114463	-1294	90937
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	35	—	—	—	-35
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
4.8 अन्य	5423	23411	12974	-10437	7551
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
5.2 खजाना	—	—	—	—	—
6 निवेश	1964	1964	1964	0	—
7 अन्य आस्तियां	4865	5782	5838	56	973

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	6 नवंबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4218823	568494	63642	7779	616667	90687	1028997	120686
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3894208	524742	52999	6403	560393	82530	932188	108914
1.2 स्वर्ण	278941	37587	10240	1328	48414	7009	87258	10677
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11046	1488	66	7	246	56	790	49
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	34628	4676	337	40	7615	1093	8762	1046

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

6 नवंबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹433352 करोड़	2020													
	24 अक्टूबर	25 अक्टूबर	26 अक्टूबर	27 अक्टूबर	28 अक्टूबर	29 अक्टूबर	30 अक्टूबर	31 अक्टूबर	1 नवंबर	2 नवंबर	3 नवंबर	4 नवंबर	5 नवंबर	6 नवंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	434918	434351	433473	431295	432880	456014	453999	433806	433619	428676	424538	424323	424021	450857
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	100.4	100.2	100.0	99.5	99.9	105.2	104.8	100.1	100.1	98.9	98.0	97.9	97.8	104.0

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	23 अक्टूबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	204203	-6280	7312	-30145	38452	20063
1.2 बैंकों से उधार	51346	1034	-19632	-12655	-16894	-8481
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15826	387	-3464	-338	-2695	4151
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14292624	-9323	404313	725132	1206830	1314540
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.1	3.2	5.3	10.3	10.1
2.1.1 मांग	1505302	35324	-149994	-111701	123703	144009
2.1.2 मीयादी	12787322	-44647	554307	836833	1083126	1170531
2.2 उधारियां	255339	94	-42176	-54100	-35388	-80738
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	563550	43688	-32594	-40126	20100	52497
3 रिज़र्व बैंक से उधार	115451	-2016	-158415	-170172	-110335	93178
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	521878	-233	-7264	-101568	82221	-111441
4.1 उपलब्ध नकदी	84868	2254	10203	-2393	8742	-212
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	437010	-2487	-17467	-99176	73479	-111230
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	150020	-1113	13385	-5381	39973	-86413
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	12925	1800	-21205	-7348	-18557	1878
5.3 बैंकों को अग्रिम	21073	-735	-4198	-9459	-8943	-4365
5.4 अन्य आस्तियां	31664	476	-8581	-22368	8745	-2634
6 निवेश	4441962	-19149	302437	694612	247636	758469
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.4	8.9	18.5	7.2	20.6
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4440351	-19389	296524	701655	240655	764825
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1610	240	5912	-7043	6981	-6357
7 बैंक ऋण	10338853	-4664	68840	-32008	806587	498291
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.0	0.7	-0.3	8.9	5.1
7 क.1 खाद्य ऋण	66659	3266	28168	14895	14744	-3119
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10272194	-7930	40672	-46903	791843	501410
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10169671	-6354	112462	20162	821644	535215
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	23176	1574	-1503	-2481	4257	-1544
7 ख.3 भुनाए गए	100038	1246	-33097	-45645	-14802	-25161
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	17239	-947	-517	-3218	-102	-6832
7 ख.5 भुनाए गए	28728	-183	-8505	-825	-4410	-3388

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	8 नवंबर	9 अक्टूबर	16 अक्टूबर	23 अक्टूबर	30 अक्टूबर	6 नवंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.70	3.65	..	3.65	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	75.75	72.32	..	72.34	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	17.60	-3.72	..	-4.41	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.91	31.19	..	31.08	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	88.85	97.18	..	95.79	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.70/8.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.65/7.10	6.65/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.25/6.85	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.03	3.41	3.39	3.27	3.19	3.17
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.03	3.28	3.25	3.19	3.20	3.17
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.14	3.42	3.38	3.35	3.36	3.36
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.24	3.51	3.48	3.46	3.45	3.43
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.67	5.96	5.96	5.88	5.91	5.90
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.25	73.21	73.38	73.58	73.97	74.05
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	78.73	86.21	85.84	86.78	86.97	87.52
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.03	3.61	3.43	3.34	3.24	3.32
3-माह	3.42	3.72	3.65	3.56	3.46	3.51
6-माह	3.93	4.02	3.95	4.00	3.89	3.94

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/जूलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	23 अक्टूबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	17804885	-1321	0.0	523295	3.4	1004921	6.0	1528982	10.6	1849523	11.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2619612	10489	0.4	109672	5.3	269863	11.5	286746	15.3	457731	21.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1625734	34828	2.2	-149007	-9.2	-111958	-6.4	126589	9.4	148229	10.0
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13518822	-44481	-0.3	563161	4.8	844807	6.7	1109014	9.9	1234058	10.0
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	40717	-2156	-5.0	-530	-1.7	2209	5.7	6633	27.0	9505	30.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5588946	-40913	-0.7	463668	10.6	628584	12.7	559120	13.0	736789	15.2
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	905454	-20147		165008		-86738		315893		-61505	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4683492	-20766	-0.4	298660	8.3	715322	18.0	243227	6.7	798294	20.5
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10999604	-5983	-0.1	74476	0.7	-39040	-0.4	833486	8.7	542409	5.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	14792	-12		-7683		1626		-1550		7112	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	10984812	-5971	-0.1	82159	0.8	-40666	-0.4	835036	8.7	535297	5.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4365595	90943	2.1	274116	8.9	564559	14.9	341491	11.4	1020639	30.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26451	-	-	158	0.6	103	0.4	348	1.4	406	1.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	3026427	3175712	45368	1.4	289122	11.9	149285	4.9	205464	8.2	450720	16.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	1378342	1412121	29948	2.2	35695	3.4	33779	2.5	-54766	-4.8	317631	29.0

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	6 नवंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3259649	15257	0.5	97188	3.5	229943	7.6	306769	12.0	391980	13.7
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2733453	18277	0.7	134971	6.3	286141	11.7	249410	12.3	461711	20.3
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	484539	-3524	-0.7	-37913	-6.3	-59349	-10.9	50221	9.8	-79517	-14.1
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41658	504	1.2	130	0.4	3150	8.2	7138	28.9	9786	30.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	996346	51435		208508		4154		279270		-14113	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	987351	46587		201605		-2390		275088		-14727	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-494811	-41913		-391834		-293918		-332262		-255828	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-509745	-42052		-383821		-295686		-330293		-263412	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4203267	52972	1.3	327055	11.5	612864	17.1	318410	11.1	1027625	32.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26451			235	0.9	103	0.4	426	1.7	328	1.3
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	1378342	1471603	47237	3.3	46776	4.4	93261	6.8	-40925	-3.6	366032	33.1

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर										
	1	2	3	4										
	5	6	7	8				9	10					
2 नवंबर 2020	-	679830	-	-	165	-	-	-	20000	-	-	-	-	-659665
3 नवंबर 2020	-	692072	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-692072
4 नवंबर 2020	-	682680	-	-	159	-	-	-	2830	-	-	-	-	-679691
5 नवंबर 2020	-	691021	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-984	-691990
6 नवंबर 2020	-	647614	-	-	18	-	-	-	10000	-	-	-	-	-637596
7 नवंबर 2020	-	10386	-	-	2958	-	-	-	-	-	-	-	-	-7428
8 नवंबर 2020	-	215	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-137

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टैलरटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टैलरटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं।

**'01 जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना सं. 2020-21/01 के अनुसार। ऋणात्मक (-) चिह्न द्वारा विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश के संबंध में प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाया गया है।'

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	145.8	147.2	156.4	158.4	1.3	6.6	7.6
1.1 ग्रामीण	146.7	148.3	157.5	159.7	1.4	6.6	7.7
1.2 शहरी	144.7	146.0	155.2	156.8	1.0	6.4	7.4
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	-	-	118.0	..	-	-	-
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	121.3	122.0	122.9	..	..	..	..
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	143.0	145.5	150.3	..	..	..	..
3.2 ईंधन और बिजली	100.6	102.3	91.0	..	..	..	..
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.9	117.8	119.8	..	..	..	..

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
9 अक्टूबर 2020	74825	877	3.53 - 5.75
23 अक्टूबर 2020	78340	4635	3.65 - 4.25

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
15 अक्टूबर 2020	395016	81950	3.25 - 11.94
31 अक्टूबर 2020	380112	40839	3.19 - 14.19

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	8 नवंबर 2019	30 अक्टूबर 2020	6 नवंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	19981	10675	9975
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	813	5025	3642
3 सीबीएलओ#	282849	397522	349122
4 बाजार रेपो	187131	350328	321779
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4588	5545	172

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

6 नवंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2262	11331	69680	214830
182-दिवसीय	153121	55035	4103	307189
364-दिवसीय	132932	129001	15757	401647
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (6 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (8 नवंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (6 नवंबर 2020 तक)	2019 - 20 (8 नवंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	876000	506000	710000	745428	404972	473972
2. राज्य सरकारें	448656	293556	634521	375752	209010	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।